

January 31, 2026

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No.C/1, G-Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
MUMBAI – 400051, India

BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street
Fort
MUMBAI – 400001, India

Scrip Code : MSUMI

Scrip Code : 543498

Subject: Publication of unaudited Financial Results in Newspaper for the third quarter and nine months ended December 31, 2025

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper publication(s) dated January 31, 2026 in The Economics Times, Navbharat Times and Navashakti with respect to unaudited financial results for the third quarter and nine months ended December 31, 2025.

The above is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly
For Motherson Sumi Wiring India Limited


POOJA MEHRA
MEHRA

Digitally signed by
POOJA MEHRA
Date: 2026.01.31
12:44:14 +05'30'

Pooja Mehra
Company Secretary

Encl(s): As above

Regd. Office:
Motherson Sumi Wiring India Limited
Unit – 705, C Wing, ONE BKC, G Block Bandra Kurla Complex,
Bandra East Mumbai – 400051, Maharashtra (India)
Tel: 022-61354800, Fax: 022-61354801
CIN No.: L29306MH2020PLC341326
E-mail: investorrelations@mswil.motherson.com
website: www.mswil.motherson.com

Proud to be part of samvardhana 

Confident Group Founder Roy Dies by Suicide

An I-T team was at the group's office when he allegedly shot himself

Our Bureau

Bengaluru: Confident Group founder-chairman Chiriankandath Joseph Roy ended his life at the real estate group's corporate office in Bengaluru Friday. His colleagues rushed the 57-year-old to a private hospital after finding him lying in a pool of blood with gunshot wounds. He was declared dead later.

An income tax team from Kerala was at the Confident Group office when he allegedly shot himself, said people in the know.

The Kerala wing of the Income Tax Department has been probing the Confident Group for some time. Tax officials had conducted a round of searches in December and recorded Roy's statement. The team returned Friday as part of the ongoing investigation, the people said.

Bengaluru police commissioner Seemant Kumar Singh, who visited the place, said the police were investigating the case.

Widely known as CJ Roy, he hailed from Kerala. He is survived by his wife, a



son and a daughter. After working at American technology company Hewlett-Packard, Roy started the real estate business two decades back. He led the Confident Group from a regional developer into a diversified conglomerate with a significant land bank and footprints in India and the UAE. He also produced movies.

Roy never came across as someone who would take such an extreme step, said people who knew him closely. He always moved with security and carried a personal pistol, they said.

What was more shocking was he shot himself when an income tax team was in his office, said a real estate industry executive. "While we talk about ease of doing business, frequent raids by various departments have led to mounting pressure on developers," he said.

US SEC Fraud Case Against Adani Can Proceed After Procedural Matter Resolved

Group says plea filed by Gautam and Sagar Adani seeking time to challenge SEC plaint

New York: The US Securities and Exchange Commission (SEC) has arranged to serve Gautam Adani with a civil fraud lawsuit, allowing the regulator's case to proceed.

In a Friday filing in the Brooklyn, New York federal court, the SEC and US-based lawyers for Adani and his nephew Sagar Adani said the lawyers agreed to accept the SEC's legal papers, eliminating the need for US District Judge Nicholas Garaufis to rule on how the defendants should be served. If the judge approves the resolution, the Adanis will have 90 days to respond to the SEC's complaint, which could include requests for a dismissal. The SEC charged the Ada-

nis in November 2024 with violating US securities law by orchestrating a scheme to pay or promise to pay hundreds of millions of dollars in bribes to Indian government officials to benefit Adani Green Energy, where both are executives and directors.

In a late evening statement on Friday, the Adani Group said the counsels for Gautam Adani and Sagar Adani

had accepted the papers, and filed a joint application with the concerned court that will allow the SEC matter to progress while giving time to the defendants to file a motion to dismiss the SEC complaint or file their defence within 90 days.

The Adanis have not been charged with any violation of bribery or corruption laws, the statement said, adding that Adani Green Energy is not a party to the proceedings, and no charges have been brought against it.—Agencies

motherson

MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LIMITED

Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India
Tel No. 022-61354800, Fax: 022-61354801, Email: investorrelations@mswil.motherson.com, Website: www.mswil.motherson.com
CIN - L29306MH2020PLC341326

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

		Three Months ended			Nine Months ended		INR in Crores
Particulars		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	Year ended
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	31.03.2025
							(Audited)
1	Total income from operations	2,888.02	2,762.67	2,300.86	8,145.58	6,821.07	9,332.20
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)	199.54	221.00	184.64	610.17	585.72	805.41
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	199.54	221.00	184.64	610.17	585.72	805.41
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	149.44	165.34	139.98	457.88	440.93	605.86
5	Total comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}	152.23	165.67	138.93	451.05	433.34	596.23
6	Paid up Equity Share Capital (of INR 1/- each)	663.17	663.17	442.11	663.17	442.11	442.11
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						1,256.20
8	Earnings Per Share (of INR 1/- each) - Basic and Diluted (not annualised)	0.23	0.25	0.21	0.69	0.66	0.91

Note:

- a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine months financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.mswil.motherson.com).



Scan the QR Code to view the results on the website of the company

Place: Dubai
Date: January 30, 2026

Proud to be part of samvardhana motherson

By Order of the Board of Directors
For Motherson Sumi Wiring India Limited
-sd-
V. C. SEHGAL
Chairman
DIN No. :- 00291126

jaro education

Jaro Institute of Technology Management and Research Limited							
Regd. Office: 11th Floor, Vikas Centre, Dr. C.G. Road, Near Basant Theatre, Chembur (E), Mumbai-400 074							
Tel : +91-22-25205763, Website : www.jaroeducation.com, Email Id : comp@jaro.in							
CIN: U80301MH2009PLC193957							
Extract of Financial results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2025							
(INR in lakhs except Earnings per share data)							
Sl No	Particulars	Quarter ended			Nine months ended		Year ended
		December 31, 2025 (Unaudited)	September 30, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	December 31, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Total Income (Refer note 3)	6,180.47	8,053.67	4,348.70	20,315.73	17,932.80	25,401.87
2	Profit/(Loss) before tax	933.49	2,317.66	(530.76)	4,276.76	4,542.57	7,014.36
3	Net Profit/(Loss) after tax for the period / year	703.06	1,702.00	(388.87)	3,158.36	3,348.22	5,166.87
4	Total Comprehensive income/(loss) for the period/ year [Comprising profit/(loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(loss) after tax]	691.26	1,696.10	(400.97)	3,134.76	3,330.52	5,143.25
5	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs 10/- each fully paid up)	2,215.62	2,215.62	2,023.75	2,215.62	2,023.75	2,023.75
6	Other Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.31
7	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (in Rs.) (Not annualised except for the year ended March 31, 2025)						
	1. Basic	3.17	8.33	(1.92)	15.12	16.08	25.53
	2. Diluted	3.34	8.26	(1.91)	15.00	15.99	25.35
Notes:							
1	The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31,2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its meeting held on January 29,2026. The Statutory Auditors of the Company has carried out limited review of the aforesaid results.						
	The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015.						
2	The full format of the Quarterly and Nine months Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on Company's website www.jaroeducation.com						
3	Total Income includes						
		(INR in lakhs)					
Particulars	Quarter ended			Nine months ended		Year ended	
	December 31, 2025 (Unaudited)	September 30, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	December 31, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	
Revenue from operations	6,000.96	8,040.75	4,329.18	20,109.17	17,814.18	25,226.26	
Other Income	179.51	12.92	19.52	206.56	118.62	175.61	
Total Income	6,180.47	8,053.68	4,348.70	20,315.73	17,932.80	25,401.87	
Place : Mumbai							
Date : January 29, 2026							
Sd/- Sanjay Namdeo Salunkhe Chairman & Managing Director							
Thank You !							



BMW INDUSTRIES LIMITED

CIN : L51109WB1981PLC034212
Regd Office: 119, Park Street, White House, 3rd Floor, Kolkata - 700 016
Phone: 033 4007 1704, E mail: info@bmwil.co.in; Web: www.bmwil.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹ In Lakh) - except Earning Per Share)

Sl. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter Ended			Nine months ended			Quarter Ended			Nine months ended		
		December 31, 2025 (Unaudited)	September 30, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	December 31, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	December 31, 2025 (Unaudited)	September 30, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	December 31, 2025 (Unaudited)	December 31, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	16,348.16	14,663.99	14,812.85	46,344.73	47,562.18	63,677.94	16,378.03	14,695.57	14,879.52	46,427.92	47,716.47	63,868.86
2	Net Profit (Loss) for the period (before tax exceptional and/or extraordinary items)	2,124.71	2,105.88	2,225.53	6,255.70	7,721.81	10,051.19	2,112.40	2,067.81	2,226.13	6,189.34	7,659.35	9,979.25
3	Net Profit (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,124.71	2,105.88	2,225.53	6,255.70	7,721.81	10,051.19	2,112.40	2,067.81	2,226.13	6,189.34	7,659.35	9,979.25
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,765.71	1,532.46	1,728.37	4,826.03	5,780.25	7,535.84	1,758.00	1,502.90	1,719.22	4,775.78	5,717.41	7,484.30
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,767.45	1,534.21	1,724.57	4,831.26	5,768.87	7,542.81	1,760.14	1,505.04	1,714.76	4,782.21	5,708.50	7,492.87
6	Paid-up Equity Snare Capita (Face value Rs 1/- per share)	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86	2,250.86
7	Other Equity	-	-	-	-	-	71,225.38	-	-	-	-	-	70,908.15
8	Earnings Per Share Basic & diluted (in Rs)	0.78	0.68	0.77	2.14	2.57	3.35	0.78	0.67	0.76	2.12	2.54	3.33

Notes:

- 1) The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee on 28th January, 2026 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in their meetings held on 29th January, 2026. These unaudited financial results of the Company are prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("referred to as Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and the provisions of the Companies Act, 2013.
- 2) The "Limited Review of the Unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2025 pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors. An unmodified report has been issued by them thereon.
- 3) As reported in the earlier quarter, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench (NCLT), vide its Order dated September 26th, 2025, has approved the Scheme of arrangement ("the Scheme") for amalgamation of erstwhile two wholly owned subsidiaries ("the subsidiaries") namely BMW Iron & Steel Industries Limited (BMWISIL) and Nippon Cryo Private Limited (NCPL) (herein after collectively referred to as Transferor companies) with its Holding Company BMW Industries Limited (BMWIL), with effect from April 1st, 2024, i.e., the appointed date in terms of the Scheme. The Scheme was given effect to in the financial statements for the quarter and half year ended September 30th, 2025, as per pooling of interest method in accordance with Appendix- C of IND AS 103 applicable for Business combination of entities under common control.
- The Scheme being effective from April 1st, 2024, the transaction and balances pertaining to BMWISIL and NCPL (being undertaken by the erstwhile subsidiaries on behalf of the Company) for the year ended from April 1st, 2024 to March 31st, 2025 and for the half year ended September 30, 2025 were incorporated in the financial results for the half year ended September 30, 2025 and corresponding figures for the preceding quarters/periods as reported therein were restated to give effect to the Scheme. Accordingly, the figures for the quarter and nine months ended December 31st, 2024 have been restated during the current quarter/period for the purpose for this standalone financial results.
- 4) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The aforesaid Unaudited Financial Results are available on the website of the Company, www.bmwil.co.in and also on the website of the BSE Limited, www.bseindia.com and Calcutta Stock Exchange of India Limited, www.cse-india.com, where the shares of the Company are listed and also can be accessed by scanning the Quick Response Code available below.



Place : Kolkata
Date : 29th January,2025

For and on behalf of the Board
Sd/-
Ram Gopal Bansal
Whole-Time Director
DIN : 00144159

COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LTD.

CIAL/OPS-S-LITE/32

TENDER NOTICE

31/01/2026

Online Item rate E-tenders are invited from reputed agencies for the work mentioned below at Cochin International Airport.

Name of work	Tender Fee (₹)	EMD (₹)	Completion Period
SIITC of Safety, Learning, Inspections, Training & Environment System (S-LITE) at CIAL	₹5,000/-	₹3 Lakhs	05 months

Interested firms may register themselves on the online E-Tendering portal <https://etenders.kerala.gov.in> and then download the Tender documents. For eligibility criteria and other details, visit our website www.cial.aero

Sd/- , Managing Director

UJVN LIMITED

H.O.: "UJJWAL", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006

Telephones: 0135-2763808, Fax: 0135-2763508

CIN No. U40101UR2001SGC025866 Website: www.ujvn.com

Letter No: 82

Date: 29/01/2026

e- Notice No.: 01/DGM(CD-II)/ICB/Lakhwar MPP/2025-26

Expression of Interest

UJVN Limited invites Expressions of Interest (Eoi) from reputed National and International consultancy firms for providing consultancy services for "Optimization of the present shear zone treatment methodology and its improvisation for the Lakhwar Multipurpose Project (MPP)".

Lakhwar Multipurpose Project (MPP) (300 MW) involves the construction of a 204 m high concrete gravity dam above the deepest foundation level, with a top width of 10 m. A shear zone comprising clay gouge with crushed zone on either side having thickness of about 5 – 6 m on either side, dipping upstream at an angle of approximately 45°, with thickness varying from a few centimeters to about 2.0 m, has been identified in the downstream area of the dam, particularly in the stilling basin region. This passes about 55 m to 70m below the dam foundation. The shear zone treatment works at the project are presently under progress. The selected consultancy firm shall be required to review, assess, and suggest optimized and improved methodologies for ongoing and future shear zone treatment works.

Necessary details of the project & scope of services can be downloaded by the interested parties from Nigam website <https://ujvn.uk.gov.in> and the Government e-Tender portal <https://uktenders.gov.in>. The interested parties are advised to visit the project site to familiarize themselves with the site conditions for submission of a technically sound and effective proposal.

Firms submitting technically sound and feasible proposals shall be shortlisted and invited to make a presentation at the Corporate Office of UJVN Limited, UJJWAL, Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun. After evaluation, eligible firms shall be invited to submit Technical and Financial Bids through the Government e-Tender portal <https://uktenders.gov.in>.

The Expression of Interest must be submitted online on <https://uktenders.gov.in>, up to **21.02.2026** at 15:00 hrs, failing which the Eoi shall not be accepted. Additionally, the hard copy of the proposal must reach the office of Deputy General Manager (CD-II), UJVN Limited, 5th Floor, UJJWAL, GMS Road, Dehradun, on or before **24.02.2026** at 15:00 hrs.

UJVN Limited reserves the right to accept or reject any or all the Eoi's without assigning any reason thereof. For full & further details, kindly visit e-procurement portal <https://uktenders.gov.in>.

Dy. General Manager (CD-II)
UJVN Limited, Dehradun

"AVOID WASTEFUL USE OF ELECTRICITY"

19 को मायके, 20 को दिल्ली, 22 को मर्डर

जिस दिन SWAT कमांडो काजल का मर्डर हुआ, उन्होंने अपनी मां से की थी बात

■ नवीन निश्चल, मोहन गार्डन

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के SWAT कमांडो में तैनात काजल की मौत ने पूरे परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया है। मां मीना और पिता राकेश उस पल को याद करके खुद को कोस रहे हैं... कि काश काजल उनकी बात मान लेती तो आज जिंदा होती। उन्होंने समझाया था कि अंकुर ठीक लड़का नहीं है, उससे शादी न करे। लेकिन और प्यार के बाद वह 23 नवंबर 2023 को शादी के बंधन में बंध गई।

डेढ़ साल के बेटे को गांव छोड़कर दोनों दिल्ली आए थे। काजल ने जिस अंकुर को

अपनी जिंदगी का प्यार समझा, उसी ने डंबल से मारकर जान ले ली। अब उनका डेढ़ साल का बेटा देवांश भी अनाथ हो गया। मां की मौत हो गई और पिता जेल चला गया। फिलहाल वह दादा-दादी के पास है, क्योंकि जब काजल और अंकुर गांव से दिल्ली आए थे तो बेटे को हरियाणा में ही छोड़ दिया था। मृतक काजल के मायके वालों के बयान SDM के सामने दर्ज कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने सभी आरोप लिखित में दिए हैं।

मृतक की मां मीना ने बताया कि अंकुर ने काजल से 5 लाख रुपये अलग से ले रखे थे। काजल ने 10 लाख रुपये लोन पर और 3 लाख बिना ब्याज के दिल्ली पुलिस



रिश्ते का खून

- नेशनल लेवल बास्केट बॉल में सिल्वर जीत चुकी थी काजल
- अंकुर ने काजल से 5 लाख रुपये अलग से ले रखे थे
- SDM के सामने परिवार वालों ने दर्ज कराए बयान

से लिए थे। बाद में उसने अंकुर को एक गाड़ी भी दिलवाई थी। उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में ही खत्म हो जाता था। मोहन गार्डन के विपिन गार्डन एक्सटेशन में जिस अपार्टमेंट के फ्लैट में दोनों रहते थे, वह भी इन्होंने ही खरीदा था।

पिता राकेश ने बताया कि 19 जनवरी को काजल मायके आई थीं। 20 जनवरी को वह गांव से ससुराल होते हुए अंकुर के साथ दिल्ली आई गईं। लेकिन दो दिन बाद, 22 जनवरी को अंकुर ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने काजल के भाई को

फोन करके एंगुलेंस लाने के लिए कहा। जब पुलिस घर पहुंची तो खून से सना डंबल देखकर सन्न रह गईं। पिता ने कहा कि अंकुर के परिवार वाले शुरू से काजल को पसंद नहीं करते थे। फिर भी दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए परिवार ने रजामंदी दे दी। पहले काजल की नौकरी लगी, बाद में अंकुर की नौकरी हुई। शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन उसके घरवाले दोनों को गांव बुला लेते थे। घर का सारा काम काजल से करवाते थे। भाई निखिल ने बताया कि पांचवीं से दसवीं तक काजल ने नवोदय विद्यालय में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। खेलकूद में वह काफी तेज थी। स्कूल के दौरान नेशनल लेवल बास्केट बॉल में सिल्वर मेडल जीत चुकी थी।

पिता का किया था अपमान, इसलिए ली थी जान, अरेस्ट



■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली



कैफे में मर्डर मामले में आरोपी को एनकाउंटर के बाद सेल ने पकड़ा

फायरिंग की थी। अगले दिन 23 साल के मोहम्मद मोइन कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके हत्या की बात कबूल की। वीडियो पोस्ट करने के बाद कुरैशी अंडरग्राउंड हो गया और बाद में उसने अपना कबूलनामा डिलीट कर दिया। जांच करने वालों ने आखिरकार CCTV फुटेंज से उसकी पहचान कन्फर्म की। स्पेशल सेल संदिग्ध के परिवार और करीबी लोगों पर सीक्रेट निगरानी रखे हुए थीं।

29 जनवरी की शाम को आरोपी कुरैशी के ट्रांस-यमुना इलाके में होने की जानकारी मिली। 30 जनवरी की सुबह टीम को पता चला कि कुरैशी दिल्ली से भागने के लिए धीरपुर, ITI, तिमारपुर के पास किसी से पैसे लेने के लिए आने वाला है। टीम ने स्ट्रेटजिक पोजेशन ली। जब कुरैशी बाइक पर आया तो उसे सरेंडर करने को कहा। उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से जखमी हो गया। पूछताछ में मोहम्मद मोइन कुरैशी ने बताया कि वह और फैजान एक ही इलाके के रहने वाले थे।

झगड़ा तब शुरू हुआ जब कुरैशी ने फैजान से 30,000 उधार लिए, लेकिन चुका नहीं रहा था। कुरैशी ने आरोप लगाया कि पैसे न देने पर फैजान ने उसके पिता के साथ बुरा बर्ताव किया। बदला लेने के लिए कुरैशी ने पिस्टल का इंतजाम किया और कैफे में फैजान पर कई राउंड फायर कर जान ले ली।

कॉन्स्टेबल ने की खुदकुशी

■ NBT न्यूज़, जनकपुरी

उनकी बाँड़ी पंखे से लटकी हुई मिली। हालांकि, पुलिस की तरफ से आधिकारिक

पश्चिमी जिले के डॉंग स्क्वॉर्ड में तैनात दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। कॉन्स्टेबल की पहचान इंदर सिंह (50) के रूप में हुई है। वह राजस्थान के भिवानी के रहने वाले थे। वर्तमान में वह जनकपुरी थाने के पीछे डॉंग स्क्वॉर्ड के ऑफिस में तैनात थे। शुक्रवार सुबह

डॉंग स्क्वॉर्ड में थे तैनात, कुछ समय से डिप्रेशन में थे

रूप से इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। पता चला है कि इंदर सिंह की नन्ही पोती की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में चल रहे थे। इन दिनों वह बड़े भाई के साथ चंचल पार्क इलाके में रह रहे थे, क्योंकि उनका मकान अभी बन रहा था।

बुजुर्ग से लूटपाट की कोशिश करने वाले तीनों लुटेरे अरेस्ट

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

गई जूली सहित 28 हजार की नकदी बरामद हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस ने पांच मामलों का खुलासा किया है।

साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सरोजिनी नगर थाना पुलिस ने बुजुर्ग NDMC कर्मचारी से लूट का प्रयास करने वाले तीनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने साउथ कैपस में भी एक महिला

सरोजिनी नगर में की थी लूटपाट की कोशिश

डोसीपी अमित गोयल ने बताया कि 26 जनवरी को ARD कॉम्प्लेक्स के पास एक व्यक्ति से बाइक सवार तीन बदमाशों ने चाकू दिखाकर लूटपाट की कोशिश की थी। लेकिन NDMC में कार्यरत बुजुर्ग आरोपियों से भिड़ गए और हेलमेट से उन पर हमला कर दिया जिससे आरोपी मौके से फरार हो गए।

अर्जी बड़ी या मोटी है, सिर्फ इसलिए बेल नहीं देना गलत: HC

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी जमानत अर्जी को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि संबंधित याचिका बहुत बड़ी या मोटी है। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने ट्रायल कोर्ट की कड़ी आलोचना की, जिसमें पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को इस आधार पर जमानत देने से मना कर दिया कि जमानत अर्जी बहुत बड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के लिए जरूरी है कि जमानत याचिकाओं पर उनके सर्वोपेक्ष से आधार पर फैसला किया जाए, न कि

उनके हल्के या मोटे होने के आधार पर खारिज किया जाए। हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी आरोपी की आजादी को कोर्ट के सामने रखे गए कागजों की कथित 'मोटाई' पर निर्भर नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में आरोपी विजय गुप्ता की जमानत याचिका को उसके गुण-दोष की जांच किए बिना खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका लगभग 500 पन्नों की थी। गुप्ता ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने का आरोप लगाया।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (रिशा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय) अध्याग आरक्षक अली मार्ग, नई दिल्ली - 110067		
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में निम्नलिखित पदों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:		
क्र.सं.	पद का नाम	रिक्तियाँ
1	निदेशक (अनुसंधान)	01 (एक)
2	उपनिदेशक (अनुसंधान)	02 (दो)
3	प्रणाली विश्लेषक सह वरिष्ठ प्रोग्रामर	01 (एक)
4	लेखा सहायक	04 (चार)
5	प्रवर श्रेणी लिपिक	07 (सात)
ध्यान दें: विस्तृत जानकारी आईसीएसएसआर को वेबसाइट www.icssr.org पर देखी जा सकती है।		

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (राज्य मंत्रालय - भारत सरकार) बीटीएम सेक्टर 2, महीवाला, बंगलुरु - 560 068, कर्नाटक फोन: +91 80 26282699 फैक्स: +91 80 26681511 ई-मेल: estab.csb@nic.in		
विज्ञापन संख्या केरेबो/ 02/2025	भर्ती सूचना	दिनांक: 31.01.2026
केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रतिनिधित्वित के आधारपर विभिन्न पदों को भरनेकेलिएअधिसूचना संख्या केरेबो /02 / 2025 दिनांक 22.11.2025 का प्रकाशन किया गया था, जोरोजगार समाचार (22-28 नवंबर, 2025) में प्रकाशित हुई थी। यह सूचित किया जाताहै कि विभिन्न पदों केलिए आवेदनप्राप्त करने की अंतिम तिथि को 30 दिनोंके लिए और बढ़ादिया गया है, अर्थात् 20.02.2026 तक।		
कृपया विस्तृत विवरण के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट www.csb.gov.in CBC: 41109/12/0018/2526		
केन्द्रीय रेशम बोर्ड		

प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली-110011 (भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)	
भर्ती सूचना (संविदा आधार पर)	
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल), संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय में संविदा आधार पर महाप्रबंधक (संग्रहालय) के पद हेतु रु. 1,15,000/- की समेकित पारिश्रमिक राशि तथा मुख्य क्यूरेटर के पद हेतु रु. 1,50,000/- की समेकित पारिश्रमिक राशि पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।	
समाचारपत्र में संवर्धित विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर आवेदन ईमेल : ceo.pmmuseum@gmail.com पर प्राप्त हो जाना चाहिए।	
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट : http://pmmil.nic.in देखें।	
cbc09142/12/0054/2526	

संख्या Admin-12011(16)/7/2025-eoffice

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

(औषधि अनुभाग)

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन पात्र उम्मीदवारों से केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) पर नीचे उल्लिखित पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर होगी।

2. अधिक जानकारी के लिए कृपया सीडीएससीओ वेबसाइट <https://cdsco.gov.in> पर जाएं।

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	पद का नाम	जिस कार्यालय के लिए पद भरा गया है
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ सहायक नमूना वाइन	पे मेंट्रिक्स में स्तर-6 रुपये (35400-112400)	1	केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई

(पवन कुमार)

उप निदेशक प्रशासन (औषधि)

सी.डी.एस.सी.ओ. मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

CBC 17194/11/0022/2526

RELAXO

रजि. कार्यालय: अग्रवाल सिटी स्कायर, प्लॉट नं: 10, मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर -3, रोहिणी, दिल्ली -110085 (इंडिया), फोन: 91-11-46800600, 46800700, फैक्स नं: 91-11-46800692
ई मेल: rfi@relaxofootwear.com, वेबसाइट: www.relaxofootwear.com
CIN: L74899DL1984PLC019097

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
	अलेखापरीक्षित				लेखापरीक्षित
1. परिचालनों से कुल आय	678.99	673.70	1985.60	2113.33	2816.57
2. अवधि में कर से पूर्व शुद्ध लाभ (अपवाद एवं असाधारण मदों से पूर्व)	35.92	44.61	150.68	154.51	229.87
3. अवधि में कर से पूर्व शुद्ध लाभ (अपवाद एवं असाधारण मदों के पश्चात्)	35.92	44.61	150.68	154.51	229.87
4. अवधि में कर पश्चात् शुद्ध लाभ (अपवाद एवं असाधारण मदों के पश्चात्)	26.54	33.01	111.60	114.11	170.33
5. अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें शामिल हैं अवधि के लिए लाभ (कर पश्चात्) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)]	25.39	33.65	111.49	116.03	171.64
6. इक्विटी शेयर पूंजी	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89
7. रिज़र्व, पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व छोड़ कर	-	-	-	-	2073.18
8. प्रति इक्विटी शेयर आय अंकित मूल्य ₹ 1/- प्रत्येक (₹ में)	1.06	1.32	4.48	4.58	6.84
मूल तनुकृत	1.06	1.32	4.48	4.58	6.84
नोट: उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल तिमाही/नौमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/नौमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी इसे देखा जा सकता है।					
<div><div></div><div>कृते निदेशक मंडल की ओर से</div><div>हस्ता. /—</div><div>रमेश कुमार दुआ</div><div>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</div><div>डी आई एन: 00157872</div></div>					
दिल्ली, जनवरी 30, 2026					
<div><div>RELAXO FLITE</div><div></div><div>Bahamas</div></div>					

motherson

Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India
Tel No. 022-61354800, Fax: 022-61354801, Email: investorrelations@mswil.motherson.com, Website: www.mswil.motherson.com
CIN - L29306MH2020PLC341326

MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LIMITED

Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India
Tel No. 022-61354800, Fax: 022-61354801, Email: investorrelations@mswil.motherson.com, Website: www.mswil.motherson.com
CIN - L29306MH2020PLC341326

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

INR in Crores

Particulars	Three Months ended			Nine Months ended		Year ended
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	2,888.02	2,762.67	2,300.86	8,145.58	6,821.07
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)	199.54	221.00	184.64	610.17	585.72
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	199.54	221.00	184.64	610.17	585.72
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	149.44	165.34	139.98	457.88	440.93
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	152.23	165.67	138.93	451.05	433.34
6	Paid up Equity Share Capital (of INR 1/- each)	663.17	663.17	442.11	663.17	442.11
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)					1,256.20
8	Earnings Per Share (of INR 1/- each) - Basic and Diluted (not annualised)	0.23	0.25	0.21	0.69	0.66

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine months financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.mswil.motherson.com).

Place: Dubai
Date: January 30, 2026

Scan the QR Code to view the results on the website of the company

motherson

By Order of the Board of Directors
For Motherson Sumi Wiring India Limited
-sd-
V. C. SEHGAL
Chairman
DIN No. :- 00291126

